



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 26

25 नवम्बर 2011

संख्या 47

1. भारतीय रिज़र्व बैंक — देयताएं और आस्तियां

(कोड़ ₹)

मद	2010	2011		घट-बढ़	
	19 नवम्बर	11 नवम्बर	18 नवम्बर #	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
जारी नोट	8,96,987	10,08,875	10,08,147	-729	1,11,159
संचलन में नोट	8,96,975	10,08,868	10,08,132	-736	1,11,157
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	12	8	15	7	3
जमा राशियां					
केंद्र सरकार	36,550	100	100	—	-36,450
बाजार स्थिरीकरण योजना	—	—	—	—	—
राज्य सरकार	41	42	42	—	1
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3,00,631	3,86,648	3,58,393	-28,255	57,762
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3,968	3,932	3,847	-84	-120
अन्य बैंक	14,511	17,316	16,419	-897	1,908
अन्य	12,260	10,594	10,547	-47	-1,713
अन्य देयताएं	3,57,208	5,64,888	5,73,297	8,409	2,16,090
कुल देयताएं / आस्तियां	16,22,157	19,92,397	19,70,794	-21,603	3,48,637
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	12,19,416	14,11,202	14,11,897	694	1,92,480
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	96,510	1,31,442	1,31,442	—	34,932
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	2,94,513	4,23,139	3,99,801	-23,338	1,05,288
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	13,272	15,849	2,577	15,849
राज्य सरकारें	1,460	749	1,322	573	-138
नाबार्ड	—	—	—	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	4,447	4,350	3,219	-1,131	-1,227
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	30	—	—	—	-30
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	308	648	646	-1	338
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	1,320	1,320	1,320	—	—
अन्य आस्तियां	4,153	6,274	5,298	-977	1,145

- (1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों/बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं। इसमें 20 मार्च 2009 से आइएफएससी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश भी शामिल है।
 (2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।
 (3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	18 नवम्बर 2011 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2011 की समाप्ति पर		दिसंबर 2010 की समाप्ति पर		वर्ष	
	कोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	कोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	कोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	कोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	कोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल भंडार	15,78,114	308,624	1,408	-5,715	2,17,100	3,806	2,45,760	11,290	2,30,992	10,639
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां +	14,09,945	274,576	654	-5,713*	1,85,062	246	2,09,868	6,762	1,91,660	5,401
(ख) स्वर्ण \$	1,31,442	26,896	—	—	28,870	3,924	30,756	4,426	34,932	5,228
(ग) विशेष आहरण अधिकार @	23,246	4,527	477	-1	2,845	-42	493	-551	-37	-617
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	13,481	2,625	277	-1	323	-322	4,643	653	4,437	627

+ आइएफएससी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किए गये ₹1,951 करोड़ / 380 मिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश को छोड़कर।

* अमरीकी डॉलर के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित निधि की स्थिति अर्थात् प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक ज्ञापन मद के रूप में दिखाया गया है अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल की गई है।

@ इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सामान्य आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 3,082.5 मिलियन एसडीआर (4,883 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) और विशिष्ट आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 214.6 मिलियन एसडीआर (340 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) शामिल हैं, जिनका आवंटन क्रमशः 28 अगस्त 2009 और 9 सितंबर 2009 को किया गया।

\$ इसमें ₹31,463 करोड़ (6,699 मिलियन अमरीकी डॉलर) शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3 नवम्बर 2009 को खरीदे गए 200 मेट्रिक टन सोने को परिलक्षित करता है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	4 नव. 2011 को बकाया #	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़				
		पखवाड़े में	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2010-2011	2011-2012	2010	2011
	1	2	3	4	5	6
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	70,027	742	-1,367	-3,715	11,530	6,463
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	23,375	-1,274	-11,944	-6,349	2,954	2,961
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	9,873	-89	920	2,749	1,281	2,975
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां	56,54,106	35,120	3,19,960	4,46,137	6,42,165	8,41,320
		(0.6)	(7.1)	(8.6)	(15.4)	(17.5)
मांग	5,64,735	-2,157	-55,055	-76,971	63,606	-25,820
मीयादी	50,89,371	37,277	3,75,015	5,23,107	578,559	8,67,140
उधार ⁽³⁾	1,69,860	-3,227	3,073	38,519	10,667	62,509
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	3,55,030	-1,476	7,249	13,226	16,651	18,361
रिजर्व बैंक से उधार	870	-198	3,829	-4,161	3,871	-3,000
रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष	3,80,014	-30,176	33,106	30,506	95,887	39,941
पास में नकदी	38,488	-1,273	3,035	8,142	4,127	9,875
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	3,41,527	-28,903	30,070	22,364	91,760	30,066
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	58,571	530	-15,743	2,434	1,149	11,893
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	15,180	-954	-5,968	-1,426	2,302	3,480
बैंकों को अग्रिम	6,717	1,436	-5,937	-5,852	2,133	2,762
अन्य आस्तियां	70,538	469	8,196	1,465	28,395	17,879
निवेश⁽⁵⁾	17,31,638	24,989	1,03,479	2,30,019	1,20,399	2,43,407
		(1.5)	(7.5)	(15.3)	(8.8)	(16.4)
सरकारी प्रतिभूतियों में	17,27,472	24,859	1,04,910	2,30,324	1,23,199	2,44,167
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	4,166	130	-1,431	-305	-2,800	-761
बैंक ऋण	41,80,474	29,954	2,85,608	2,38,392	6,36,963	6,50,078
		(0.7)	(8.8)	(6.0)	(22.0)	(18.4)
खाद्य ऋण	77,464	8,542	5,259	13,181	11,636	23,715
खाद्येतर ऋण	41,03,011	21,413	2,80,349	2,25,211	6,25,327	6,26,363
ऋण, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	40,31,256	33,223	2,83,640	2,37,249	6,11,598	6,25,458
देशी बिल - खरीदे गए	13,638	526	-1,177	194	621	2,802
भुनाए गए ⁽⁶⁾	80,262	-167	2,707	396	15,561	15,338
विदेशी बिल - खरीदे गए	18,526	-914	1,537	-57	1,746	856
भुनाए गए	36,793	-2,713	-1,098	609	7,436	5,624
नकद-जमा अनुपात	6.72					
निवेश-जमा अनुपात	30.63					
ऋण-जमा अनुपात	73.94					

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुसूची में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एक्जिज्म बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2010	2011					
	12 नवम्बर	7 अक्टूबर	14 अक्टूबर	21 अक्टूबर	28 अक्टूबर	4 नवम्बर	11 नवम्बर
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आधार दर ⁽²⁾	7.50/8.50	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75	10.00/10.75
जमा दर ⁽³⁾	7.00/8.00	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25	8.50/9.25
मांग मुद्रा दर (भारकित औसत) ⁽⁴⁾	7.13	8.00	8.27	8.26	8.40	8.47	8.60

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) 1 जुलाई 2010 से पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित आधार दर। पहले के आंकड़ों का संबंध बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से है। (3) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित है। (4) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन का 90-95 प्रतिशत भाग शामिल है। मांग मुद्रा दर (भारकित औसत) सप्ताह (शनिवार से शुक्रवार) के लिए दैनिक मांग मुद्रा दर का मात्रा-भारकित औसत है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बांडों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

मद	2011-2012			2010-2011		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (2)-(1)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (5)-(4)
	2011			2010		
	25 मार्च	4 नवम्बर		26 मार्च	5 नवम्बर	
	1	2	3	4	5	6
1. बैंक ऋण	39,42,083	41,80,474	2,38,392 (6.0)	32,44,788	35,30,396	2,85,608 (8.8)
क. खाद्य ऋण	64,283	77,464	13,181	48,489	53,749	5,259
ख. खाद्येतर ऋण	38,77,800	41,03,011	2,25,211 (5.8)	31,96,299	34,76,648	2,80,349 (8.8)
2. निवेश	1,47,601	1,70,559	22,958	1,18,071	1,53,091	35,020
क. वाणिज्यिक पत्र	12,309	22,943	10,634	25,188	39,341	14,153
ख. निम्न (क+ख) द्वारा जारी शेयर	41,316	38,794	-2,522	30,106	35,098	4,992
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	8,965	8,288	-677	4,625	7,727	3,102
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	32,351	30,507	-1,845	25,481	27,371	1,889
ग. निम्न (क+ख) द्वारा जारी बांड/ डिबेंचर	93,975	1,08,822	14,847	62,777	78,652	15,875
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	27,946	34,983	7,037	22,710	25,038	2,328
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	66,029	73,839	7,809	40,067	53,614	13,547
3. कुल (1ख+2)	40,25,401	42,73,570	2,48,169 (6.2)	33,14,370	36,29,738	3,15,369 (9.5)
ज्ञापन मदें :						
में निवेश						
क. पारस्परिक निधियों द्वारा जारी लिखतें	47,603	66,813	19,210	52,887	29,201	-23,687
ख. सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी लिखतें	31,296	33,847	2,551	32,597	28,408	-4,190
ग. अन्यो द्वारा जारी बांड / डिबेंचर	45,615	42,524	-3,091	30,902	32,042	1,141

टिप्पणी: 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

6. विदेशी मुद्रा दरें – हाज़िर और वायदा प्रीमिया

विदेशी मुद्रा	2011					वार्षिक वृद्धि (+) / हास (-) (प्रतिशत)				
	14 नव.	15 नव.	16 नव.	17 नव.	18 नव.	14 नव.	15 नव.	16 नव.	17 नव.	18 नव.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर	50.0845	50.5645	50.9010	50.7220	51.3530	—	-10.73	-11.16	-10.85	-11.49
यूरो	68.8325	68.7875	68.4750	68.4619	69.2589	—	-10.25	-10.11	-10.10	-10.77
फेडरल की सांकेतिक दरें (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी { खरीद	50.0850	50.6200	50.9000	50.7100	51.3350	—	-10.81	-11.16	-10.83	-11.50
डॉलर { बिक्री	50.0950	50.6300	50.9100	50.7200	51.3450	—	-10.80	-11.16	-10.82	-11.50
पौंड { खरीद	80.3575	80.3700	80.2500	79.8725	80.9700	—	-9.48	-9.62	-9.20	-10.63
स्टर्लिंग { बिक्री	80.3875	80.4000	80.2800	79.9050	81.0025	—	-9.48	-9.61	-9.19	-10.63
यूरो { खरीद	68.8225	68.7375	68.4500	68.4725	69.2775	—	-10.15	-10.09	-10.12	-10.80
{ बिक्री	68.8550	68.7700	68.4900	68.5125	69.3000	—	-10.15	-10.10	-10.13	-10.79
100 येन { खरीद	64.8950	65.6625	66.1050	65.8325	66.7825	—	-17.09	-17.54	-17.20	-18.24
{ बिक्री	64.9575	65.7100	66.1350	65.8875	66.8125	—	-17.11	-17.53	-17.22	-18.24
अमरीकी डॉलर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमिया (प्रतिशत वार्षिक)										
1 - माह	6.71	7.59	7.31	7.10	6.31					
3 - माह	5.51	5.93	5.89	5.84	4.67					
6 - माह	4.43	4.87	4.64	4.81	3.89					

— पिछले वर्ष के तदुत्तरूपी दिन बाज़ार बंद।

टिप्पणी: 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया				निम्न की तुलना में घट-बढ़							
	2011		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2010		2011	
	31 मार्च #	4 नव. #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम ₃	64,99,548	70,10,561	51,897	0.7	4,37,744	7.8	5,11,013	7.9	8,38,370	16.1	9,70,085	16.1
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	9,14,197	9,68,051	15,861	1.7	97,445	12.7	53,854	5.9	1,49,513	20.9	1,03,113	11.9
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	7,17,660	6,44,057	-1,950	-0.3	-55,379	-7.7	-73,602	-10.3	75,388	12.8	-18,534	-2.8
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा	48,63,979	53,97,145	37,838	0.7	3,95,236	9.6	5,33,166	11.0	6,14,048	15.8	8,88,479	19.7
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	3,713	1,308	148	12.7	442	11.5	-2,405	-64.8	-579	-11.9	-2,973	-69.4
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	19,82,771	21,92,844	10,936	0.5	1,66,937	10.0	2,10,073	10.6	3,51,968	23.7	3,56,722	19.4
(क) रिजर्व बैंक	3,96,555	3,80,178	-14,558		51,656		-16,376		2,12,032		1,16,937	
(ख) अन्य बैंक	15,86,216	18,12,666	25,495	1.4	1,15,281	7.9	2,26,450	14.3	1,39,935	9.8	2,39,784	15.2
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क +ख)	42,35,406	44,76,698	29,571	0.7	3,12,970	9.0	2,41,291	5.7	6,74,183	21.5	6,72,318	17.7
(क) रिजर्व बैंक	2,164	1,323	-555	—	244	—	-842	—	-3,468	—	-250	—
(ख) अन्य बैंक	42,33,242	44,75,375	30,126	0.7	3,12,726	9.0	2,42,133	5.7	6,77,652	21.7	6,72,568	17.7
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,93,327	15,51,778	-46,339	-2.9	81,884	6.4	1,58,451	11.4	4,851	0.4	1,88,425	13.8
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	12,724	13,312	—	—	883	7.8	587	4.6	1,421	13.2	1,159	9.5
(v) बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं जिनमें से :	11,24,680	12,24,070	-57,729	-4.5	1,24,929	14.7	99,390	8.8	1,94,053	24.8	2,48,539	25.5
रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	3,68,274	5,30,784	-47,754	-8.3	46,437	15.4	1,62,510	44.1	-45,733	-11.6	1,82,733	52.5

* 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2010		2011	
	31 मार्च #	18 नव. #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	13,76,881	14,01,226	-30,019	-2.1	76,212	6.6	24,344	1.8	2,28,669	22.8	1,69,327	13.7
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	9,49,659	10,21,443	-736	-0.1	1,09,680	13.7	71,784	7.6	1,57,670	21.0	1,12,215	12.3
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	4,23,509	3,78,660	-29,236	-7.2	-33,189	-9.4	-44,849	-10.6	72,257	29.3	59,550	18.7
(iii) रिजर्व बैंक के पास "अन्य" जमा	3,713	1,123	-47	-4.0	-279	-7.3	-2,590	-69.8	-1,257	-26.1	-2,437	-68.5
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	3,96,555	4,16,903	-20,220		47,928		20,348		1,87,185		1,57,390	
	3,94,035	4,15,623	-20,794		46,514		21,589		1,86,794		1,57,528	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से: बैंकों को	7,324	5,165	-1,132		3,588		-2,158		689		-920	
(नाबार्ड सहित)	5,159	3,257	-1,132		3,344		-1,902		4,513		-1,255	
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,28,553	15,43,321	694	—	83,960	6.8	2,14,768	16.2	12,750	1.0	2,27,413	17.3
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	12,724	13,312	—	—	984	8.7	587	4.6	1,426	13.2	1,058	8.6
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	3,68,274	5,77,475	9,360	1.6	60,247	20.0	2,09,201	56.8	-26,619	-6.9	2,15,613	59.6

* 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामी

(करोड़ ₹)

तारीख	रिपो अवधि (दिन)	रिपो (बढ़ाना)					रिवर्स रिपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि(+) /कमी(-) (5-10)	एमएसएफ	बकाया राशि
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)			
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14 नवम्बर 2011	1	38	91.635	38	91.635	8.50	—	—	—	—	—	91.635	—	−91.635
15 नवम्बर 2011	1	36	1.06,190	36	1.06,190	8.50	2	15	2	15	7.50	1.06,175	—	−1.06,175
16 नवम्बर 2011	1	36	1.04,470	36	1.04,470	8.50	—	—	—	—	—	1.04,470	—	−1.04,470
17 नवम्बर 2011	1	31	91.855	31	91.855	8.50	1	5	1	5	7.50	91.850	—	−91.850
18 नवम्बर 2011	3	47	1.06,535	47	1.06,535	8.50	7	1,420	7	1,420	7.50	1.05,115	—	−1.05,115

एमएसएफ : सीमांत स्थायी सुविधा ।

‘—’ : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ ₹)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			भा.रि. बैंक पर न्यागमन	कुल निर्गम (7+8+9)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
91-दिवसीय खजाना बिल													
2011-2012													
6 अप्रैल	8 अप्रैल	4,000	78	14,105	—	35	4,000	—	—	4,000	98.26	7.1443	69,845
6 जुलाई	8 जुलाई	7,000	94	27,621	250	29	7,000	250	—	7,250	98.00	8.1857	1,21,860
5 अक्तू.	7 अक्तू.	4,000	69	14,755	1,500	41	4,000	1,500	—	5,500	97.94	8.4364	1,14,719
16 नव.	18 नव.	4,000	72	9,895	1	51	4,000	1	—	4,001	97.84	8.8969	95,119
182-दिवसीय खजाना बिल													
2011-2012													
13 अप्रैल	15 अप्रैल	2,000	74	7,744	1,500	25	2,000	1,500	—	3,500	96.43	7.4462	24,501
6 जुलाई	8 जुलाई	3,000	75	7,178	—	44	3,000	—	—	3,000	96.04	8.2692	34,251
12 अक्तू.	14 अक्तू.	4,000	56	7,293	—	41	4,000	—	—	4,000	95.90	8.6177	42,100
9 नव.	11 नव.	4,000	58	6,765	—	47	4,000	—	—	4,000	95.76	8.9454	42,850
364-दिवसीय खजाना बिल													
2011-2012													
6 अप्रैल	8 अप्रैल	2,000	80	8,350	—	31	2,000	—	—	2,000	93.02	7.5476	42,456
13 जुलाई	15 जुलाई	3,000	107	13,141	—	20	3,000	—	—	3,000	92.41	8.2360	53,308
5 अक्तू.	7 अक्तू.	4,000	93	10,645	—	43	4,000	—	—	4,000	92.18	8.5185	65,161
16 नव.	18 नव.	4,000	134	19,547	203	24	4,000	203	—	4,203	91.90	8.8500	71,369

टिप्पणियाँ: 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फॉर्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।

2. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगी बोलियों की अनुमति दी गई है।

3. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्तूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में परिवर्तित कर दिया गया है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास नकद जमा शेष

(करोड़ ₹)

	दिनांक													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5 नव.	6 नव.	7 नव.	8 नव.	9 नव.	10 नव.	11 नव.	12 नव.	13 नव.	14 नव.	15 नव.	16 नव.	17 नव.	18 नव.
18 नवम्बर 2011 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधी अपेक्षाएँ	3,58,757	3,58,757	3,58,757	3,58,757	3,58,757	3,58,757	3,58,757	3,58,757	3,58,757	3,58,757	3,58,757	3,58,757	3,58,757	3,58,757
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी शेष	3,41,417	3,41,417	3,41,237	3,61,185	3,70,551	3,71,233	3,87,030	3,90,934	3,90,934	3,43,827	3,56,614	3,56,009	3,47,936	3,58,654

टिप्पणी: ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #		पखवाड़े के दौरान जारी #		ब्याज दर (प्रतिशत) @	
	1		2		3	
8 अक्तूबर 2010		3,44,158		38,285		6.36-8.26
14 जनवरी 2011		3,71,881		44,019		7.18-9.82
8 अप्रैल 2011		4,44,525		61,292		8.00-11.70
15 जुलाई 2011		4,05,973		28,431		8.20-10.10
7 अक्तूबर 2011		3,87,313		41,694		8.80-9.85
21 अक्तूबर 2011		3,85,936		11,635		9.00-9.90

@ प्रभावी वार्षिक ब्याज दर सीमा प्रतिवर्ष।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
	1	2	3
15 अक्टूबर 2010	1,32,093	35,490	6.50-10.00
15 जनवरी 2011	98,913	22,908	6.60-11.95
15 अप्रैल 2011	1,05,518	30,840	7.15-12.30
15 जुलाई 2011	1,28,347	29,818	8.10-13.25
15 सितम्बर 2011	1,59,701	31,045	8.47-14.00
30 सितम्बर 2011	1,44,621	37,926	7.83-14.50

@ पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बड़ा दर का परास।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 2004-05=100)

मद	भार	2010	2011		निम्नलिखित पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		6 नवम्बर	10 सितम्बर *	5 नवम्बर #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
		1	2	3	4	5	6	7
सभी पण्य @	100.00	..	..	..	..	..	..	..
प्राथमिक वस्तुएं	20.12	183.9	202.9	203.0	-0.8	-0.4	7.7	10.4
(i) फल और सब्जियां	3.84	172.1	191.9	199.9	-1.5	-2.8	19.8	16.2
ईंधन और विद्युत	14.91	148.5	167.8	171.5	1.0	0.8	8.6	15.5
विनिर्मित उत्पाद @	64.97	..	..	..	..	..	..	..
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	2.09	..	..	..	..	..	..	..
(ii) खाद्य तेल	3.04	..	..	..	..	..	..	..
(iii) सीमेंट और चूना	1.39	..	..	..	..	..	..	..
(iv) लोहा और सेमिस	1.56	..	..	..	..	..	..	..

* : अद्यतन उपलब्ध अंतिम आंकड़े।

प्रोट : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

@ आंकड़ों को प्रति माह जारी किया जाता है।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2010	2011				
	18 नवम्बर	14 नवम्बर	15 नवम्बर	16 नवम्बर	17 नवम्बर	18 नवम्बर
	1	2	3	4	5	6
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	19930.64	17118.74	16882.67	16775.87	16461.71	16371.51
एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी (3.11.1995=1000)	5998.80	5148.35	5068.50	5030.45	4934.75	4905.80

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त *

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह						
	7 अक्टूबर 2011	14 अक्टूबर 2011	21 अक्टूबर 2011	28 अक्टूबर 2011	4 नवम्बर 2011	11 नवम्बर 2011	18 नवम्बर 2011
	1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	9,823	12,907	8,972	12,550	10,022	8,613	8,551
ख) दिए गए ऋण	10,681	13,645	9,467	12,985	10,479	9,585	9,003
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	858	738	495	435	457	972	452
ख) दिए गए ऋण	—	—	—	—	—	—	—
3. कुल							
क) लिए गए उधार	10,681	13,645	9,467	12,985	10,479	9,585	9,003
ख) दिए गए ऋण	10,681	13,645	9,467	12,985	10,479	9,585	9,003

टिप्पणी: 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य)@

(करोड़ ₹)

मद	समाप्त सप्ताह					
	14 अक्टूबर 2011	21 अक्टूबर 2011	28 अक्टूबर 2011	4 नवम्बर 2011	11 नवम्बर 2011	18 नवम्बर 2011
	1	2	3	4	5	6
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	1,03,415	1,10,688	54,170	1,10,797	53,364	1,31,544
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	1,716	2,143	456	603	1,740	1,631
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	6,413	5,256	4,966	7,536	4,025	3,753
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	1,991	1,184	1,452	1,815	1,060	2,940
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	2,402	3,106	988	2,998	971	4,748
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	89	422	536	99	60	133

@ रिपो लेनदेन को छोड़कर।

* भारि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी \$)

स्थिति की तारीख	वणिक						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई/आइ एन आर			एफ सी वाई/एफ सी वाई			एफ सी वाई/आइ एन आर			एफ सी वाई/एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खरीद												
31 अक्टूबर 2011	3,378	2,161	1,796	488	819	523	7,149	6,891	823	3,824	3,518	364
1 नवम्बर 2011	2,140	1,129	825	217	278	354	6,630	6,375	513	3,171	2,195	134
2 नवम्बर 2011	2,119	1,226	639	161	396	271	6,631	7,433	719	3,153	1,869	134
3 नवम्बर 2011	2,451	1,460	769	118	310	305	7,382	8,354	832	3,413	2,006	89
4 नवम्बर 2011	2,257	1,428	622	107	391	295	6,004	6,971	745	2,522	2,436	160
बिक्री												
31 अक्टूबर 2011	2,871	2,092	2,172	491	826	501	7,021	8,938	777	3,769	3,683	317
1 नवम्बर 2011	1,927	1,236	607	216	304	285	6,496	7,751	669	3,201	2,255	160
2 नवम्बर 2011	2,382	1,119	474	168	361	277	6,593	8,174	723	3,100	1,811	126
3 नवम्बर 2011	1,745	1,787	982	116	309	307	7,000	9,489	1,290	3,437	1,924	74
4 नवम्बर 2011	2,775	1,593	395	95	337	331	5,349	7,543	977	2,526	2,292	170

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर = भारतीय रुपया ।

टिप्पणी: ये आंकड़े वणिक और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह					
	14 अक्टूबर 2011	21 अक्टूबर 2011	28 अक्टूबर 2011	4 नवम्बर 2011	11 नवम्बर 2011	18 नवम्बर 2011
	1	2	3	4	5	6
राशि	452.54	1,326.51	294.62	1,029.07	137.78	599.42

स्रोत: भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ ₹)

धारक	18 नवम्बर 2011					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल				कुल (1+2+3+4)	सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
	1	2	3	4	5	6	7
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	31,268	14,305	21,431	67,004	-1,399	23,586
राज्य सरकारें	65,624	25,118	900	419	92,060	676	-19,428
अन्य	4,600	38,733	27,645	49,520	1,20,497	1,207	37,099

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार — 2011-2012

(अंकित मूल्य करोड़ ₹ में)

	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2011-2012 (18 नवम्बर 2011 तक)	2010-2011 (19 नवम्बर 2010 तक)	2010-2011	2011-2012 (18 नवम्बर 2011 तक)	2010-2011 (19 नवम्बर 2010 तक)	2010-2011
	1	2	3	4	5	6
1. कुल	3,15,000	3,50,000	4,37,000	2,52,419	2,64,813	3,25,414
2. भारिबैंक के खुला बाजार परिचालन* : बिक्री	4,984	5,435	11,575			
खरीद	5,000	13,777	78,799			

* भारि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)*

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	11 नवम्बर 2011 को समाप्त सप्ताह			18 नवम्बर 2011 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
	1	2	3	4	5	6
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2011-12	—	—	—	—	—	—
2012-13	20	8.7307	8.7501	451	8.7273	8.8608
2013-14	—	—	—	10	8.6060	8.6060
2014-15	5	8.5840	8.5840	—	—	—
2015-16	20	8.5864	8.6653	21	8.6833	8.7015
2016-17	30	8.8390	8.8963	588	8.7391	9.0136
2017-18	460	8.8412	9.0416	327	8.7301	9.1022
2018-19	3,630	8.8118	9.0125	5,633	8.7994	9.0611
2019-20	—	—	—	25	9.0500	9.0500
2020-21	—	—	—	675	9.0000	9.6814
2021 से आगे	22,517	8.7300	9.1427	58,042	8.7694	9.3028
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	870	8.9616	9.2312	816	9.0630	9.2340
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	60	8.4983	8.6000	819	8.5000	8.8921
ख) 15 - 91 दिन	1,953	8.3998	8.8672	2,365	8.6196	8.8550
ग) 92 - 182 दिन	530	8.6500	8.8798	1,339	8.7500	8.8600
घ) 183 - 364 दिन	485	8.6400	8.8500	1,199	8.7158	8.8500
II. भा.रि.बैं. * : बिक्री	30			66		
खरीद	30			66 +		
III. रिपो लेनदेन * (भा. रि. बैं. से इतर)	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	16,582	7.50 (1)	10.25 (15)	38,882	7.00 (1)	10.00 (92)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	279	8.40 (1)	8.60 (3)	38	8.50 (1)	10.25 (15)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	8,279	8.35 (1)	8.66 (3)	21,492	8.00 (1)	8.75 (3)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	4,369	8.45 (1)	8.65 (4)	10,200	8.45 (1)	8.90 (3)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	5,228	8.45 (1)	8.65 (3)	9,014	8.40 (1)	8.70 (3)
IV. भा.रि.बैं. : रिपो * ^	3,31,450	—	8.50	5,00,685	—	8.50
: रिवर्स रिपो !	—	—	—	1,440	—	7.50

@ भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेनदेन शामिल है।

* भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

** न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) गैर मानक समूह (₹5 करोड़ से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

✱ कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो नीलामी शामिल है।

+ इसमें विशेष बाजार परिचालन के अंतर्गत के तेल मार्केटिंग कम्पनियों की ₹ शून्य (अंकित मूल्य) के भारत सरकार के विशेष बाँड (तेल बाँड) का क्रय शामिल है।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े रिपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः ₹800 और ₹2,000

तथा विदेश में क्रमशः 50 अमरीकी \$ और 125 अमरीकी \$ है।

श्रीमती महुआ राय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित और ऑनलुकर प्रेस, 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित और भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 द्वारा प्रकाशित, संपादक श्रीमती महुआ राय।